

पुलिस ने पकड़ी नशीली दवा की खेप, दो को भेजा जेल

Publish Date: Fri, 24 Dec 2021 08:07 PM (IST) Author: Jagran



गंगोह कोतवाली पुलिस ने भारी संख्या में प्रतिबंधित दवा पकड़ी गई है। एक मेडिकल स्टोर स्वामी व बेचने के लिए ले जा रहे अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में नशीली दवाईयां बरामद की हैं। आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।

सहारनपुर, जेएनएन। गंगोह कोतवाली पुलिस ने भारी संख्या में प्रतिबंधित दवा पकड़ी गई है। एक मेडिकल स्टोर स्वामी व बेचने के लिए ले जा रहे अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में नशीली दवाईयां बरामद की हैं। आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।

बृहस्पतिवार तीसरे पहर कोतवाली पुलिस ने सूचना के आधार पर ककराली मार्ग स्थित एक मेडिकल स्टोर से नशीली दवा पकड़ी थी। ड्रग इंस्पेक्टर ने भी मेडिकल स्टोर को खंगाला था। कोतवाली पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दौलतपुर पुल के पास चेकिंग के दौरान हरियाणा के गढ़ी सादान थाना इंद्री जिला करनाल निवासी मनीष उर्फ मोहित को प्रतिबंधित नशे की 1200 गोलियों के साथ पकड़ा था। इसके पास से मिली एक बाइक को भी कोतवाली लाया गया था। इसकी निशानदेही पर मोहल्ला छत्ता स्थित मेडिकल स्टोर स्वामी रवि कुमार के पास से 31,580 नशे की गोलियां व कैप्सूल बरामद किए गए थे। पुलिस ने रवि को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपित रवि ने बताया कि मनीष हरियाणा ले जाकर इन नशीली दवा को बेचता हैं, जिन्हें छात्र आदि खरीद लेते है। इनकी बिक्री से उन्हें अच्छा मुनाफा हो जाता है। पुलिस ने धारा 8/22/60 (3) एनडीपीएस एक्ट बनाम मनीष व धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम रवि मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया है, जबकि बरामद बाइक सीज कर दी है। इससे पहले भी कई बार हरियाणा व यूपी पुलिस की छापेमारी में नशीली दवाओं को पकड़ कर कार्रवाई की है।

शिविर में बनाए ई-श्रमकार्ड

अंबेहटा: नगर के मोहल्ला नागान स्थित निशुल्क शिविर लगाकर ई-श्रम कार्ड बनाए गए। शुक्रवार को चैयरपर्सन गुलशाना शाकिर के आवास पर शिविर का शुभारंभ वरिष्ठ समाज सेवी बाबू नासिर, मनोज गुप्ता, चौ इनाम शाकिर व अर्शी शफीक ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। चैयरपर्सन प्रतिनिधि जिन्दा हसन शाकिर ने कहा कि मजदूर वर्ग को श्रम कार्ड से दो लाख के बीमा के साथ साथ अन्य सुविधा भी मिलेगी। शिविर में चार सौ से अधिक लोगों ने ई-श्रम कार्ड बनवाए गए हैं। इस दौरान डा. उरुज चौधरी, छोटन मेंबर, सैय्यद रिहान, हयात सऊद, खालिद कुरैशी, नईम अहमद आदि मौजूद रहे। गांव अलीपुरा एंवम रंढेडी मे ग्राम प्रधान के आवास पर भी शिविर लगाकर ई श्रम कार्ड बनाए गए हैं।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/saharanpur-police-caught-a-consignment-of-drugs-sent-two-to-jail-22322808.html>